

No.F.8/2/15/2015/L&B/LA/1062237


Dated. 28/08/15

Copy forwarded to :-

1. Secretary to the Govt. of India, M/o Urban Development & Employment, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Commissioner, South Delhi, Municipal Corporation, 9th Floor, Civic Centre, New Delhi
3. CEO, Delhi Jal Board, Varunalaya, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi, with reference to your requisition No F. DJB/CEO/L&E(NGT)/2015/2896 dated 13/08/2015
4. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
5. Dy. Commissioner/District Collector (West), Old School Building, Rampura, Delhi with two spare copies for wide publicity and for SDM and Tehsildar concerned.
6. ADM/ (West), O/o DC West, Old School Building, Rampura, Delhi.
7. Tehsildar (L&B) (in duplicate), Vikas Bhawan, New Delhi.
8. Tehsildar (Notification), 5 Shamnath Marg, Delhi.
9. Legal Advisor (L&B), Vikas Bhawan, New Delhi.
10. Central Record Room, L&B Deptt. Vikas Bhawan, New Delhi.
11. DCA (Fin.), L&B deptt. Vikas Bhawan, New Delhi.
12. System Analyst (Computer Cell), L&B Deptt. , Vikas Bhawan, New Delhi with request to upload the notification on departmental website.

Copy forwarded for information to:

1. Secretary to Hon'ble Lt. Governor Raj Niwas Marg, Delhi
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Delhi Secretariat, Delhi
3. Secretary to Hon'ble Deputy Chief Minister, Delhi Secretariat, Delhi
4. Secretary to the Legislative Assembly, Old Sectt, Delhi


28/8/15

(H.P.S.Sran)

Special Secretary (L&B)

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No. F.8/2/15/2015/L&B/LA (1062)

Dated: 28/8/15

NOTIFICATION

Whereas, it appears to the Appropriate Government of Delhi that land is likely to be acquired by the Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP);


And whereas, as per provision of clause (e) of sub-section (1) of section 10 A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), land mentioned below is to be acquired for aforesaid public purpose which shall be used for Infrastructure Project i.e construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) which will treat the Waste Water Generated from the inhabitants of the Tikri Kalan Village and adjoining areas,

And whereas, with reference to proviso of the said section, it is certified that the land proposed for acquisition is bare minimum land required for the above said purpose;

And whereas, the Additional District Magistrate, District (West) is hereby appointed as Administrator under sub-section (1) of section 43 of the said Act for Rehabilitation and Resettlement of displaced persons due to acquisition of the said land;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act read with notification No S.O.2740 (E) dated the 21st October 2014 issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, it is hereby notified that the land specified below is likely to be acquired for the above mentioned purpose, for information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within 60 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Collector / D.C. (West).


Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Collector/DC (West).



SPECIFICATION

S.No.	Village	Khasra No.	Area (Bigha- Biswa)
1	Tikri Kalan	74//21	4-16
		22	4-3
		85//2/1	2-8
		2/2	2-8
		3/1	1-9
		Total	15-04

By order and in the name of Lieutenant
Governor, National Capital Territory of Delhi.



(H.P.S.Sran)
Special Secretary (L&B)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भूमि एवं भवन विभाग: विकास भवन, नई दिल्ली

सं0फा0 8/2/15/2015/भू0 एवं भव0/भू0 अधि0/

दिनांक:

अधिसूचना

जबकि, दिल्ली सरकार को यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि मुख्यतः अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (अ0ज0शौ0स0) के निर्माण हेतु सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सार्वजनिक खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10क की उपधारा (1) के खंड (ड) के प्रावधान के अनुसार, निम्नलिखित भूमि जो उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जानी है, जो कि आधारभूत परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टिकरी कला गांव और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल का शोधन करेंगे;

और जबकि, उक्त धारा के परन्तुक के संदर्भ में, यह प्रमाणित है कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है;

और जबकि, उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के पुनर्वास और पुनस्थापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला (पश्चिम) को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है;

इसलिए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिये निम्नलिखित भूमि का अधिग्रहण किया जाना संभाव्य है। इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में कोई आपत्ति रखता है, वह अपनी आपत्ति अधिसूचना के जारी होने के साथ (60) दिनों के अन्दर समारहता/उपायुक्त (पश्चिम) को लिखित में दर्ज करा सकता है;

अधिसूचना द्वारा दशायें गई सीमाओं को दिखाने का नक्शा समार्हता/उपायुक्त (पश्चिम) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

विशिष्ट विवरण

क्र० सं०	गांव का नाम	खसरा नं०	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
1.	टिकरी कलां	74//21	4-16
		22	4-3
		85//2/1	2-8
		2/2	2-8
		3/1	1-9
		कुल योग	15-04

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

हस्ताक्षर सह
28/8/15

(ह.प.सि.सरान)

विशेष सचिव (भू० एवं म०)